

## **\*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.01.2021 जनपद देवरिया\***

दिनांक 12.01.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया में अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

**\*01-थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा चोरी का माल, दो सूटकेस बरामद करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।\***

दिनांक 09.01.2021 को थाना बघौचघाट क्षेत्रान्तर्गत बघौचघाट कस्बे से 02 सूटकेस चोरी किये जाने के संबन्ध में थाना खुखुन्दू पर दिनांक 10.01.2021 को वादिनी श्रीमती मंशा देवी पत्नी राकेश मिश्रा के तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2021 धारा- 457,380,411 भादवि पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना उ0नि0 परमात्मा राय के द्वारा ग्रहण कर सम्पादित किया जा रहा है। विवेचना के क्रम में दिनांक 12.01.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर बघौचघाट कस्बे से दो व्यक्तियों को दो चोरी के सूटकेस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा अपना नाम पता 01.नत्थू शर्मा पुत्र सुनील 02.अमित शर्मा पुत्र गुलाब सा0 व थाना बघौचघाट, देवरिया बताया गया। अभियुक्त के पास से दो अदद सूटकेस मय सामान बरामद करते हुये थाना बघौचघाट पर पंजीकृत मुअ0सं0 06/2021 धारा- 457,380,411 भादवि का सफल अनावरण किया गया।

**\*02.निरोधात्मक कार्यवाही-\***

दिनांक 12.01.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 19 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

**\*03.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

दिनांक 12.01.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 102 वाहनों से 98900 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।